





STRUCTURE OF HEART

DR AAKRITI










- William Harvey- Father of blood circulation
- विलियम हार्वे- रक्त परिसंचरण के जनक
- Demonstrated blood circulation in a living
- जीवित सांप में रक्त परिसंचरण का प्रदर्शन

snake

Vena Cava HEART





HUMAN HEART- 4 CHAMBERED

2 ATRIA

2 VENTRICLES

ATRIA- 2 relatively small upper chambers

Interatrial septum separates left and right atrium

VENTRICLE- 2 larger lower chambers

Interventricular septum separates left and right ventricles

मानव हृदय चार कक्षीय है

2 अलिंद

2 निलय


अलिंद

2 ऊपरी अपेक्षाकृत छोटे कक्ष हैं

निलय

2 निचले अपेक्षाकृत बड़े कक्ष हैं

VALVES OF HEART



ATRIO-
VENTRICULAR
VALVES

RIGHT,
TRICUSPID
VALVE


LEFT
BICUSPID/
MITRAL VALVE

SEMILUNAR
VALVES

PULMONARY
VALVE

AORTIC VALVE

हृदय वाल्व के प्रकार



Onlymyhealth

एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व

1. त्रिकपर्दी कपाट

2. मिट्रल कपाट

अर्धचंद्र वॉल्व

1. महाधमनी वॉल्व

2. पल्मोनरी वॉल्व